



प्रेसनोट थाना बरहन जनपद आगरा।

थाना बरहन पुलिस टीम द्वारा किया गया 01 शातिर ठग को गिरफ्तार, कब्जे से 02 आरसी फर्जी छायाप्रतियाँ कलर्ड बरामद...

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा द्वारा दिये गये आदेशानुसार चोरी/लूट, डकैती, जालसाज व धोखाधड़ी आदि अपराधों की पूर्ण रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पश्चिमी आगरा के निर्देशन में, क्षेत्राधिकारी एत्मादपुर के सफल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी बरहन को टीम गठित कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

इसी क्रमानुसार दिनांक 19.07.2021 को गठित पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति/वाहन हेतु थाना क्षेत्र में चैकिंग की जा रही थी। इस दौरान मुखबिर खास द्वारा मिली कि आपके थाने पर वाँछित अपराधी कही जाने की फिराक में बन्द पडे पेट्रोप पम्प हनुमान मन्दिर जलेसर रोड आँवलखेडा पर खडा है यदि की जाये तो पकडा जा सकता है।

➤ पुलिस टीम द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण:-

इस सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम द्वारा वाँछित अभियुक्त 01. विजय सिंह उर्फ पप्पू पुत्र स्व0 श्री देवीराम निवासी तिर्खा थाना सकरौली जनपद एटा को बन्द पडे पेट्रोप पम्प हनुमान मन्दिर आगरा जलेसर रोड आँवलखेडा से दिनांक 19.07.2021 को समय 04.40 बजे गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना बरहन पर मु0अ0सं0 131/21 धारा 41/102 सीआरपीसी व 420/414/467/468/471 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया था।

➤ पूछताछ का विवरण:-

पुलिस टीम द्वारा पूछताछ करने पर अपना नाम 01. विजय सिंह उर्फ पप्पू पुत्र स्व0 श्री देवीराम निवासी तिर्खा थाना सकरौली जनपद एटा बताया। कड़ाई से पूछताछ करने पर बताया कि मैं अपने साथियों 01. डॉक्टर जुगल किशोर पुत्र स्व0 नोबत सिंह निवासी नगला सिरजी थाना बरहन जनपद आगरा हाल पता कालोनी कुबेरपुर चौराहा थाना एत्मादपुर जनपद आगरा 02. नर सिंह उर्फ चिन्टू पुत्र स्व0 श्री शेर सिंह निवासी 262ए न्यू रेलवे काँलोनी थाना टूण्डला जनपद फिरोजाबाद 03. सतेन्द्र सिंह पुत्र चौब सिंह निवासी सूर्यनगर कालौनी थाना टूण्डला जनपद फिरोजाबाद 04. गोयल पुत्र अशोक कुमार निवासी 72 चौबे जी का बाग थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद के साथ मिलकर हम मोटर साइकिल को फाइनेंस पर उठाकर फिर उसकी फर्जी आरसी तैयार कर लोगो को लालच में लेकर सस्ते दामो पर बेचकर हम लोग लाभ कमाते है जो लाभ कमाते थे उसको हम लोग आपस में बराबर-बराबर बाँट लेते थे। आज आरसी की कलर्ड छायाप्रतियाँ थाने पर मुकदमें में बरामद मो0सा0 की है, जो मेरे थी, बताया।

➤ गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01. विजय सिंह उर्फ पप्पू पुत्र स्व0 श्री देवीराम निवासी तिर्खा थाना सकरौली जनपद एटा।





➤ बरामदगी का विवरण:-

01. 2 आरसी फर्जी कलर्ड छायाप्रति ।

➤ गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

01. थानाध्यक्ष बहादुर सिंह थाना बरहन जनपद आगरा ।
02. उ0नि0 राजवीर सिंह थाना बरहन जनपद आगरा ।
03. है0का0 1205 योगेन्द्र कुमार थाना बरहन जनपद आगरा ।
04. का0 कपिल कुमार , का0 अंकित कुमार थाना बरहन जनपद आगरा ।

मीडिया सेल जनपद आगरा